

“वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, चंडीगढ़” के पूर्व-प्रक्षेपण (प्री-लांच) पर आयोजित गोष्ठी की प्रेस-विज्ञप्ति

दिनांक 30 नवम्बर, 2015 को सांय 05.00 बजे से मर्चेन्ट्स चेम्बर आफ उत्तर प्रदेश एवं वर्ल्ड ट्रेड सेंटर इंडिया सर्विसेज कौंसिल (Word Trade Centre India Services Council) के संयुक्त तत्वाधान में “वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, चंडीगढ़” में पूर्व-प्रक्षेपण हेतु एक गोष्ठी का आयोजन किया गया।

मर्चेन्ट्स चैम्बर ऑफ उत्तर प्रदेश एवं VERBIND ने वर्ल्ड ट्रेड सेण्टर-नॉएडा के साथ ट्रेड एवं व्यापार को बढ़ावा देने के लिए एक समझौता-ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया था।

VERBIND जो की एकीकृत व्यापार सेवाओं के विकास की सुविधा के लिए प्रदत्त है, जिसके तहत वर्ल्ड ट्रेड सेंटर-चंडीगढ़ को दिसम्बर 06, 2015 को शुभारम्भ (लांच) किया जा रहा है।

वर्ल्ड ट्रेड सेण्टर की पूरी दुनिया भर में 110 शाखाए हैं।

जैसा की हम लोग जानते हैं वर्ल्ड ट्रेड सेंटर निर्यातक की उपस्थिति और व्यापारिक घरानों के लिए सबसे बेहतर स्थान है।

VERBIND ग्रुप ने अपने वेंचर को चंडीगढ़ में पूर्व-प्रक्षेपण (प्री-लांच) हेतु एक प्रस्तुति दी।

डॉ. आई.एम.रोहतगी., अध्यक्ष, मर्चेन्ट्स चैम्बर ऑफ उत्तर प्रदेश, ने VERBIND से पधारे हुए प्रतिनिधिमंडल का स्वागत किया और मर्चेन्ट्स चैम्बर ऑफ ऑफ उत्तर प्रदेश के सदस्यों को उनके उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के द्वारा प्रदान की जाने वाली सुविधाओं का लाभ लेने के लिए प्रोत्साहन दिया।

श्री पी. के. आलोक. वरिष्ठ सलाहकार, VERBIND, ने पॉवर-पॉइंट प्रस्तुति दी, जिसमें उन्होंने अपने स्लोगन, “WE GROW TRADE” के बारे में बताते हुए मर्चेन्ट्स चैम्बर के सदस्यों को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर इंडिया सर्विसेज कौंसिल (Word Trade Centre India Services Council) के तहत होने वाले लाभ के बारे में बताया।

श्री अंकित गुप्ता, VERBIND, पॉवर-पॉइंट प्रस्तुति दी। जिसमें उन्होंने मर्चेन्ट्स चैम्बर के सदस्यों के लिए वर्ल्ड ट्रेड सेंटर-नोएडा में व्यापार के बुनियादी ढांचे के अवसरों के बारे में बताया तथा अपने कार्यालयों के शोरूम और प्रदर्शनी के लिए जगह उपलब्ध क्रवाने के साथ-साथ मिलने वाली सुविधाओं के बारे में भी सूचित किया।

श्री गुप्ता जी ने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर-चंडीगढ़ में मर्चेट्स चैम्बर ऑफ उत्तर प्रदेश के सदस्यों को मिलने वाली व्यापारिक और निवेश सम्बन्धी सुविधाओं के बारे में सूचित किया एवं मर्चेट्स चैम्बर को सुविधा-प्राप्त शर्तों के तहत पर विभिन्न अवसरों से अवगत करवाया ।

श्री गुप्ता ने यह भी कहा की व्यापारीगण मर्चेट्स चैम्बर ऑफ उत्तर प्रदेश से किसी भी तरह के व्यापार संबंधी शंकाओं के समाधान के लिए संपर्क कर सकते हैं, जिसका समाधान निहित समयांतराल में किया जाएगा ।

श्री वाई.एस.गर्ग, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट्स आर्गेनाइजेशन (फियो), कानपुर-चैप्टर, ने धन्यवाद दिया ।

उपस्थित गणमान्य: श्री ए.के.सिन्हा, सचिव, मर्चेट्स चैम्बर ऑफ उत्तर प्रदेश, श्री अलोक श्रीवास्तव, फियो, मर्चेट्स चैम्बर ऑफ उत्तर प्रदेश के सदस्यगण उपस्थित थे ।

धन्यवाद

मर्चेट्स चैम्बर ऑफ उत्तर प्रदेश